



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

28 कार्तिक, 1940 (श०)

संख्या- 1036 राँची, सोमवार, 19 नवम्बर, 2018 (ई०)

ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज)

अधिसूचना

19 नवम्बर, 2018

ज्ञापांक:- 01 स्था० (नि०) 4/ 2018 - 4184-- यतः झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 (यथासंशोधित) के प्रावधानों के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों की अवधि समाप्ति के पूर्व आकस्मिक रिक्ति हो गई है तथा झारखण्ड पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2001 के नियम 125 के अन्तर्गत उपलब्ध रिक्तियों के संबंध में सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को सूचना उपलब्ध करा दिया गया है ; और

यतः अब, झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 (यथासंशोधित) एवं झारखण्ड पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2001 (यथासंशोधित) के प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त रिक्तियों को भरने के लिए उप निर्वाचन कराया जाना है ;

अतः झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 66 की उपधारा 4 के अनुसरण में, जैसा कि राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड ने अपने पत्रांक 1506 दिनांक 2 नवम्बर, 2018 द्वारा सिफारिश की है, झारखण्ड राज्य के राज्यपाल एतद् द्वारा नीचे की संलग्न अनुसूची-1 के स्तम्भ (6) में विनिर्दिष्ट पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं से यह अपेक्षा करते हैं कि वे उक्त अधिनियम और तद्वीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबंधों के अनुसार दिनांक 19 दिसम्बर, 2018 को एक चरण में सभी 24 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए सदस्य निर्वाचित कर दें ।

झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से,

प्रवीण कुमार टोप्पो,
सरकार के सचिव ।
